



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2011/माघ 7, 1932

No. 141]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2011/MAGHA 7, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 जनवरी, 2011

सं. 3/2011/सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 171(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड एतद्वारा अपर अथवा संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क, लुधियाना को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, लुधियाना, क्षेत्रीय यूनिट, लुधियाना द्वारा फा. सं. 856(16)एल डी एच/2010 के जरिए 29 अक्टूबर, 2010 को मै. मेटेक्स इंटरनेशनल, 166 भारत नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना एवं अन्य को जारी कारण बताओ नोटिस संबंधी मामलों के न्याय-निर्णयन के लिए अपर अथवा संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाऊस, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, शेवा, महाराष्ट्र को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने तथा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु सामान्य न्याय-निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/70/2010-सीमा-शुल्क-IV]

विकास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2011

No. 3/2011-Customs (N. T.)

S.O. 171(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of

Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional or Joint Commissioner of Customs, Ludhiana to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on Additional or Joint Commissioner of Customs (Import) Jawaharlal Nehru Customs House, Jawaharlal Nehru Port Trust, Sheva, Maharashtra for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Matex International, 166, Bharat Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana and others, issued vide F. No. 856(16)LDH/2010 dated the 29th October, 2010, by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Ludhiana, Regional Unit, Ludhiana.

[F. No. 437/70/2010-Cus.-IV]

VIKAS, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 जनवरी, 2011

सं. 4/2011/सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 172(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) तथा धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क, लुधियाना को निम्नलिखित को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने तथा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु सामान्य न्याय-निर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करता है :—

- (i) अपर अथवा संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, शेवा, मुम्बई;

(ii) अपर अथवा संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क इलैंड कंटेनर डिपो, लोनी, बन्थाला छिरोरी रोड, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश;

(iii) अपर अथवा संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क, इलैंड कंटेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;

ताकि वे अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, लुधियाना, क्षेत्रिए यूनिट लुधियाना द्वारा फा. सं. 856(7) एलडीएच/2008/भाग-1/1543-1557 के जरिए 11 अगस्त, 2010 को मै सीरत इम्पेक्स, मै. करम इम्पेक्स एवं अन्य को जारी कारण बताओ नोटिस संबंधी मामलों का न्याय-निर्णयन कर सकें।

[फा. सं. 437/71/2010-सीमा-शुल्क-IV]

विकास, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2011

No. 4/2011-Customs (N. T.)

S.O. 172(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the

Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs, Ludhiana to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on :—

(i) Additional or Joint Commissioner of Customs, Jawahar Lal Nehru Port Trust, Nheva Sheva, Mumbai,

(ii) Additional or Joint Commissioner of Customs Inland Container Depot, Loni, Banthala Chirori Road Loni, Ghazibad, Uttar Pradesh,

(iii) Additional or Joint Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi.

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s. Sirat Impex, M/s. Karam Impex and others, issued vide F. No. 856(7) LDH/2008/Pt.-1/1543-1557 dated the 11th August, 2010. by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Ludhiana, Regional Unit Ludhiana.

[F. No. 437/71/2010-Cus. IV]

VIKAS, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 जनवरी, 2011

सं. 5/2011-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 173(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड निम्न सारणी के कॉलम 4 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट, तत्संबंधी पार्टियों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट, के मामले में न्याय-निर्णयन के लिए कॉलम 5 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आयुक्त, सीमा शुल्क (आयात), मुम्बई को नियुक्त करता है :—

सारणी

क्र. सं.	पार्टी	जारी की गई कारण बताओ नोटिसों की संख्या और तारीख	जारीकर्ता प्राधिकारी	पदनामित अधिकारी
1	2	3	4	5
1.	रिको जेम्स, मुम्बई एवं अन्य	फा. सं. VIII/सी जी-25/एसएंडडी/4/06/आर जी सी/1162 से 1171, दिनांक 31 मार्च, 2010	आयुक्त, सीमा-शुल्क (निवारक), मुम्बई	1. अपर या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), सहार ए सी सी, मुम्बई 2. अपर या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क (आयात), न्हा शेवा
2.	सी एन जी एवं कंपनी, मुम्बई एवं अन्य	फा. सं. VIII/सी जी-25/एसएंडडी/4/06/जी एन जी/1172 से 1184, दिनांक 31 मार्च, 2010	अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क (निवारक), मुम्बई	1. अपर या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), न्हा शेवा 2. अपर या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क (आयात) सहार ए सी सी, मुम्बई
3.	श्रीनाथ इंटरप्राइजेज मुम्बई एवं अन्य	फा. सं. VIII/सी जी-25/एसएंडडी/4/06/एस सी/1185 से 1195, दिनांक 31 मार्च, 2010	अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क (निवारक), मुम्बई	अपर या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), न्हा शेवा
4.	इस्टेली इपैक्स मुम्बई एवं अन्य	फा. सं. VIII/सी जी-25/एसएंडडी/4/06/ई आई/1196 से 1200, दिनांक 31 मार्च, 2010	अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क (निवारक), मुम्बई	अपर या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), न्हा शेवा

1	2	3	4	5
5.	निककी इंटरप्राइजेज मुम्बई एवं अन्य	फा. सं. VIII/सी जी-25/एसएंडडी/ 4/06/एन ई/1201 से 1207, दिनांक 31 मार्च, 2010	अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क (निवारक), मुम्बई	अपर या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), न्हावा शेवा

[फा. सं. 437/23/2010-सीमा-शुल्क-IV]

विकास, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2011

No. 5/2011-Customs (N. T.)

S.O. 173(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Commissioner of Customs (Imports), Mumbai to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on the officers specified in column (5) of the Table below in respect of the Show Cause Notices specified in the corresponding column (3) pertaining to parties specified in column (2) issued by the authorities mentioned in column (4) of the said Table, for the purposes of adjudication.

TABLE

Sl. No.	Party	Number of Show Cause Notice and Date	Issuing Authority	Designation of Officer
1	2	3	4	5
1.	Rico Gems, Mumbai and others	F. No. VIII/CG-25/S&D/4/06/RGC/1162 to 1171, dated the 31st March, 2010	Commissioner of Customs (Prev.), Mumbai	1. Additional or Joint Commissioner of Customs (Import), Sahar ACC, Mumbai 2. Additional or Joint Commissioner of Customs (Import), Nava Sheva
2.	GNG & Co. Mumbai and others	F. No. VIII/CG-25/S&D/4/06/CNG/1172 to 1184, dated the 31st March, 2010	Additional Commissioner of Customs (Prev.), Mumbai	1. Additional or Joint Commissioner of Customs (Import), Nava Sheva 2. Additional or Joint Commissioner of Customs (Import), Sahar ACC, Mumbai
3.	Shreenath Enterprises Mumbai and others	F. No. VIII/CG-25/S&D/4/06/SE/1185 to 1195, dated the 31st March, 2010	Additional Commissioner of Customs (Prev.), Mumbai	Additional or Joint Commissioner of Customs (Import), Nava Sheva
4.	Estelle Impex, Mumbai and others	F. No. VIII/CG-25/S&D/4/06/EI/1196 to 1200, dated the 31st March, 2010	Additional Commissioner of Customs (Prev.), Mumbai	Additional or Joint Commissioner of Customs (Import), Nava Sheva
5.	Nikki Enterprises Mumbai and others	F. No. VIII/CG-25/S&D/4/06/NE/1201 to 1207, dated the 31st March, 2010	Additional Commissioner of Customs (Prev.), Mumbai	Additional or Joint Commissioner of Customs (Import), Nava Sheva

[F. No. 437/23/2010-Cus.-IV]

VIKAS, Under Secy.